

25U241S

(Pages: 2)

Name:

Reg. No:

SECOND SEMESTER B.A./B.Sc./B.S.W. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2026

(CBCSS-UG)

CC19UHN2A08(1) / CC22UHN2A08(1) – GRAMMAR AND TRANSLATION

(Hindi – Common Course)

(2019 to 2023 Admissions – Supplementary)

Time: 2.5 Hours.

Maximum: 80 Marks

Credit: 4

Part A

I. निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न का अंक 2 है। आपको अधिकतम 25 अंक मिल सकते हैं ।

1. लिंग क्या है? उसके कितने भेद हैं ?
2. भाववाचक संज्ञा से क्या तात्पर्य है ?
3. शब्द किसे कहते हैं ?
4. संबंध कारक किसे कहते हैं ?
5. पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है ?
6. देशज शब्द के दो उदाहरण लिखिए ।
7. विशेषण के दो उदाहरण लिखिए ?
8. राम पुस्तक पढ़ता है - यह कौन-सा काल है ?
9. ' वह ' के साथ 'से' प्रत्यय जोड़ने से क्या बनता है ?
10. मैं चित्र बना रहा हूँ - यह कौन -सा काल है ?
11. भूतकाल से क्या तात्पर्य है ?
12. लिंग बदलकर लिखिए:- भाई, माता , पुत्र , चाचा
13. वचन बदलकर लिखिए:- लड़का , कुत्ता , लड़की, चिड़िया
14. चार सहायक क्रियाओं के नाम लिखिए ?
15. काल किसे कहते हैं ?

(Ceiling: 25 Marks)

Part B

II. निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखिए । प्रत्येक प्रश्न का अंक 5 है । आपको अधिकतम 35 अंक मिल सकते हैं ।

16. भविष्यत काल की परिभाषा देकर उसके भेदों को समझाइए ?
17. पुल्लिङ्ग से स्त्रीलिङ्ग बनाने के पाँच नियम लिखिए ।
18. एक वचन से बहुवचन बनाने के पाँच नियम लिखिए?

19. सर्वनाम किसे कहते हैं?सोदाहरण समझाइए ।
20. विशेषण कितने प्रकार के हैं ? स्पष्ट कीजिए ?
21. करण कारक और अपादान कारक के 'से' में क्या अंतर है?
22. क्रिया की परिभाषा लिखकर उदाहरण सहित समझाइए?
23. पुरुषवाचक 'आप' और निजवाचक 'आप' में क्या अंतर है?उदाहरण सहित समझाइए ।

(Ceiling: 35 Marks)

Part C

III. निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के विस्तृत उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न का अंक 10 है ।

24. कारक क्या है?उसके भेदों पर प्रकाश डालिए ?
25. वर्तमानकाल की परिभाषा देकर उसके भेदों को समझाइए ?
26. अंग्रजी में अनुवाद कीजिए :-

ताजमहल एक अत्यन्त प्रसिद्ध इमारत है। यह संसार के आश्चर्यों में से एक है। यह आगरा में यमुना के दक्षिणी तट पर स्थित है। इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। अपनी प्रिय पत्नी ममताज महल की स्मृति में उन्होंने इसे बनवाया था। इस ऐतिहासिक इमारत को देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं। वर्षा ऋतु में जब चारों ओर के दृश्य अतीव सुन्दर होते हैं तब इसे देखना अत्यन्त आनन्ददायक होता है। सैकड़ों वर्ष बीत गये, लेकिन इसका सौन्दर्य वैसा ही है जैसा कि इसका निर्माण हुआ था।

27. हिन्दी में अनुवाद कीजिए:-

Gandhiji had gone to London as the sole representative of the Congress to the Round Table Conference. We had decided, after long debate not to have additional representatives. Partly this was due to our desire to have our best men in India at a very critical time, when the most tactful handling of the situation was necessary. We felt that in spite of the R.T.C. meeting in London, the centre of gravity lay in India, and developments in India would inevitably have their reactions in London. We wanted to check untoward developments, and to keep our organisation in proper condition. This was, however, not the real reason for our sending only one representative.

(round table conference-गोल मेज सम्मेलन, debate-बहस critical time-नाजुक

समय tactful-चतुर, handling-निपटारा centre of gravity-गुरुत्व केन्द्र, developments-घटनाक्रम inevitably-अनिवार्य रूप से, untoward-अननुकूल)

(2 × 10 = 20 Marks)
